



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 1972/फाल्गुन 9, 1894

No. 46] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 1973/PHALGUNA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28th February 1973

No. 5-ETC(PN)/73.—It is notified for the information of the trade that export of Raw jute, Mesta and jute cuttings excluding caddies will be canalised through the Jute Corporation of India, Calcutta with immediate effect.

K. S. NARANG,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1973

सं० 5-ईटीसी(पीएन)/73.—व्यापारियों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि कौड़ी को छोड़कर कच्चा पटसन, मेस्ता और पटसन कतरनों के निर्यात को पटसन निगम, कलकत्ता के माध्यम से शीघ्र ही सरणीबद्ध किया जाएगा।

के० एस० नारंग,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(225)

